



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2018/अग्राहायण 9, 1940
No. 378] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018/AGRAHAYANA 9, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सं. 53/2015-2020

विषय:— पैरा 2.103 के अन्तर्गत एक नया प्रावधान जोड़ने तथा पैरा 2.104 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/56/ए एम-13 /पीसी-2 (ख)/ ई-2205.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में एक नया पैरा 2.103(ड.) जोड़ते हैं तथा पैरा 2.104(क) (ग) को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:—

2.103(ड.) उद्गम का तरजीही प्रमाणपत्र जारी करने हेतु लगाए जाने वाले शुल्क का विवरण परिशिष्ट 2ट में यथा निर्दिष्ट है। यह परिशिष्ट 2ट में यथा निर्दिष्ट सत्यापन के मामले में किसी मुक्त व्यापार समझौते के तहत जारी उद्गम प्रमाणपत्र के नियमों हेतु सत्यापन शुल्क के रूप में भी लागू होगा। तथापि, कुछ अभिकरणों द्वारा प्रदान किए जा रहे तत्काल उद्गम प्रमाणपत्र के प्रावधान को बंद किया जाएगा। उद्गम प्रमाणपत्र को आवेदन करने के 24 घंटों/एक कार्य दिवस के अन्दर प्रदान किया जाएगा।

2.104 (क) (ग)

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा 2.104 (क) (ग)
यूरोपीय संघ (ईयू) ने 01.01.2017 से जीएसपी के तहत उद्गम के नियमों को प्रमाणित करने के लिए एक स्व-प्रमाणन योजना लागू की है। 01.01.2017 से लागू की जा रही पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत, आरईएक्स संख्या वाले निर्यातक जीएसपी योजना के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के उद्गम पर विवरण को स्व-प्रमाणित करने में सक्षम होंगे। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या चार्ज के है और यह प्रणाली	यूरोपीय संघ (ईयू) ने 01.01.2017 से जीएसपी के तहत उद्गम के नियमों को प्रमाणित करने के लिए एक स्व-प्रमाणन योजना लागू की है। 01.01.2017 से लागू पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत, आरईएक्स संख्या वाले निर्यातक जीएसपी योजना के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के उद्गम पर विवरण को स्व-प्रमाणित करने में सक्षम होंगे। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या चार्ज के है।

परिशिष्ट-2ग में सूचीबद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उदगम के प्रमाण पत्र (प्रपत्र-क) को जारी करने की वर्तमान प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त कर देगी। इस योजना का विवरण अनुबंध-1 से परिशिष्ट-2ग पर है।	स्कीम का ब्यौरा अनुबंध-1 से परिशिष्ट 2(ग) में दिया गया है। स्थानीय सक्षम प्राधिकारी आयातकर्ता देश के आयातकर्ताओं/सीमा शुल्क अभिकरणों के अनुरोध के आधार पर स्व-प्रमाणित उदगम प्रमाण पत्र का पश्च सत्यापन करेंगे तथा लगाए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा परिशिष्ट 2ट में दिया गया है। अभिकरण इकाई से पृथक रूप से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सरकारी दरों के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: (i) उदगम का तरजीही प्रणाम पत्र तथा (ii) यूरोपीय संघ-जीएसपी के तहत स्व-प्रमाणित उदगम प्रमाण पत्र के पश्च सत्यापन हेतु शुल्क का प्रावधान किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th November, 2018

No. 53/2015-2020

Subject : Insertion of a new provision under Para 2.103 and amendment in Para 2.104 – reg.

F. No. 01/93/180/56/AM-13/PC-2(B)/E-2205.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby inserts a new para 2.103 (e) and amends para 2.104 (A) (c) of Handbook of Procedures of Foreign Trade Policy 2015-20 as under:

2.103 (e) Fees chargeable for issuance of preferential Certificate of Origin is as detailed in Appendix – 2K. The same would also be applicable as verification fee for Rules of Origin Certificate issued under any Free Trade Agreements, in case of verification as detailed in Appendix-2K. However, the provision of Tatkal certificate of origin as being provided by some of the agencies would be discontinued. The Certificate of origin will be delivered within 24 hours/1(one) working day of the application made.

2.104(A)(c)

Existing para	Revised para 2.104 (A) (c)
The European Union (EU) has introduced a self-certification scheme for certifying the rules of origin under GSP from 1.1.2017 onwards. Under the Registered Exporter System (REX) being introduced from 1.1.2017, exporters with a REX number will be able to self-certify the Statement on Origin of their goods being exported to EU under the GSP Scheme. The registration on REX is without any fee or charges and this system	The European Union (EU) has introduced a self-certification scheme for certifying the rules of origin under GSP from 1.1.2017 onwards. Under the Registered Exporter System (REX) introduced from 1.1.2017, exporters with a REX number are able to self-certify the Statement on Origin of their goods being exported to EU under the GSP Scheme. The registration on REX is without any fee or charges. The details of the scheme are at Annex 1 to Appendix 2C.

would eventually phase out the current system of issuance of Certificates of Origin (Form A) by the Competent Authorities listed in Appendix – 2C. The details of the scheme are at Annex 1 to Appendix 2C.	<p>The competent Local Authorities would undertake post verification of self certified Certificate of Origin based on the request of the importers/customs agencies of the importing country and the fee to be charged is detailed in Appendix 2K.</p> <p>Agencies may charge TA and DA, as per government rates, separately from the unit.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Effect of this Public Notice: Provision for fees for (i) preferential Certificate of Origin & (ii) Post Verification of self certified Certificate of Origin under EU-GSP is laid down.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
and ex-Officio Addl. Secy.